

## वायु प्रदूषण - एक राष्ट्रीय समस्या

### पृष्ठभूमि

पछिले कई महीनों से दिल्ली की वषिकृत वायु चर्चा का वषिय बन हुई है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान में न केवल दिल्ली बल्कि समस्त देश में वायु प्रदूषण का स्तर अपने भयावह स्तर पर पहुँच चुका है। हाल ही में 11 जनवरी, 2017 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तकरीबन 90 प्रतिशत से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानकों की तुलना में काफी अधिक दर्ज किया गया है।

### प्रमुख बदि

- ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में ग्रीनपीस इंडिया (Greenpeace) द्वारा देश के 168 शहरों में किये गए वायु परीक्षण में यह पाया गया कि देश के तकरीबन 154 शहरों की वायु में औसत प्रदूषक कणों का स्तर राष्ट्रीय मानक से कहीं अधिक था।
- जनि भी शहरों में यह परीक्षण संपन्न किया गया है, उनमें से किसी भी शहर की वायु की गुणवत्ता “वशिव स्वास्थ्य संगठन” (World Health Organisation- WHO) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है।
- हालाँकि, यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि एकमात्र कर्नाटक राज्य के हासन (Hasan) शहर की वायु का स्तर “वशिव स्वास्थ्य संगठन” द्वारा तय किये गए मानकों के काफी नज़दीक पाया गया।
- वभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण निकाय, उनकी वेबसाइट तथा आरटीआई के प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त डेटा का प्रयोग करते हुए इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल शहरों को पीएम10 (Particulate mater) के राष्ट्रीय औसत के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है।
- ध्यातव्य है कि पीएम10 ऐसे कण होते हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोन से कम होता है। इसके अतिरिक्त, इनमें हानिकारक कण पीएम 2.5 भी सम्मिलित होते हैं।

### प्रमुख पाँच शहर

- आश्चर्यजनक रूप से इस रिपोर्ट में दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। दिल्ली में पीएम10 का औसत वार्षिक स्तर 268 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानकों ((National Ambient Air Quality Standards) यानी 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से चार गुना अधिक पाया गया है।
- दिल्ली के बाद इस सूची में क्रमशः गाज़ियाबाद, इलाहाबाद, बरेली (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद (हरियाणा) को स्थान दिया गया है। इन पाँचों शहरों को पीएम10 स्तर के मामले में सबसे खराब स्थिति वाला पाया गया है। ध्यातव्य है कि इन सभी शहरों का औसत वार्षिक संकेन्द्रण राष्ट्रीय मानकों से चार गुना अधिक है।
- गौरतलब है कि उत्तर और मध्य भारत की वायु में इन कणों (पीएम10) का स्तर हानिकारक स्तर पर पाया गया, जबकि दक्षिण भारत की वायु को इसकी तुलना में स्वच्छ करार दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, देश के सबसे कम प्रदूषित 10 शहर दक्षिण तथा पूर्वी भारत से हैं। इनमें से आठ शहर कर्नाटक तथा अन्य दो ओडिशा व तमिलनाडु से हैं।
- गौरतलब है कि उत्तर भारत में हिमालय की उपस्थिति एवं ठंडी जलवायु होने के बावजूद अतिरिक्त औद्योगिक संकेन्द्रण के कारण ही प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया है। इसके विपरीत दक्षिण भारत को समुद्री हवाओं की उपस्थिति के कारण इस स्थिति में लाभ प्राप्त होता है।
- चूँकि प्रदूषण एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, अतः इसका उपचार भी इसी स्तर पर किया जाना चाहिये।

### वायु प्रदूषण के मुख्य दोषी

- प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के वषिय में अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि पार्टिकुलेट मैटर में जीवाश्म ईंधनों का सर्वाधिक योगदान होता है, फरि चाहे ये जीवाश्म ईंधन परिवहन क्षेत्र में हों अथवा औद्योगिक क्षेत्र में। जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित दहन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। उदहारणस्वरूप, चेन्नई समुद्र तट पर अवस्थिति है तथापि यहाँ वायु में पीएम10 का औसत स्तर 81 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।
- ध्यातव्य है कि वायु प्रदूषण का एक अन्य प्रमुख कारण डीज़ल से चलने वाले सार्वजनिक परिवहन वाहन तथा शक्ति संयंत्र भी होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में सभी शहरों को पीएम10 के औसत स्तर पर मापा गया है, तथापि कुछ शहरों, जैसे दिल्ली में अन्य शहरों की तुलना में कई अधिक नगिरानी केंद्र अवस्थिति होने के बावजूद वायु का निम्न स्तर चिंता का वषिय बना हुआ है।
- इस रिपोर्ट में ग्रीनपीस इंडिया द्वारा प्रदूषण के स्रोतों की उन्नत पहचान हेतु कुछ अन्य नगिरानी केंद्रों को स्थापित करने की भी अनुसंशा की गई है।

